



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1093) पटना, वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2015

सं0 2/नि० 01-101/12-152

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

1 सितम्बर 2015

विषय:—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रुपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) जिन्हे सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर पारिश्रमिक दिया जाता है। सेवाकाल में इनकी मृत्यु होने पर इन्हें अलग से किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। जिससे आपातकालीन सेवा के दौरान कार्य के प्रति इनकी अभिरुचि कम देखी जाती है। सामाजिक सुरक्षा हित के दृष्टिकोण से भी सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाना विचारणीय प्रतीत होता है।

2. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में मृत्यु होने पर एकमुस्त 4,00,000 (चार लाख) रुपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्णय दिनांक 22.08.15 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0-44 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है।

3.(क) यह व्यय शीर्ष “2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना” (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा।

(ख) “2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-102 ग्रामीण जल कार्यक्रम-0002, हस्तचालित ट्यूबवेल, तालाब एवं कुएं उच्च प्रवाही नलकूप। ” (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा।

(ग) “2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01 जलापूर्ति-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-0004-शहरी जलापूर्ति योजना” (31-02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जायगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1093-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>